



ARS42-M140.05 K3 S21E

मैन्युअल उपकरण बदलना

आइटम नंबर 10001015-01

ग्राइंडिंग व्हील को ड्रइंग के लिए HF-स्पिंडल

स्टॉक

हाइब्रिड बॉल बियरिंग (नग) 2

जीवनकाल लुब्रीकेशन (स्निग्धीकरण) अनुरक्षण से मुक्त

मोटर

मोटर प्रौद्योगिकी 3-चरणीय अतुल्यकालिक ड्राइव
(ब्रशरहित और सेंसररहित)

आवृत्ति 667 Hz

मोटर धुवों (जोड़ों) की संख्या 1

मूल्यांकित गति 40.000 rpm

त्वरण / मंदी 10 000 rpm
प्रति सेकंड (परामर्श के पश्चात् अन्य मान)


विद्युत शक्तिमान

कूलिंग नहीं


	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
मूल्यांकित पावर	0,57	0,33	0,25	[kW]
टॉर्क	0,147	0,091	0,086	[Nm]
वोल्टेज	71	60	46	[V]
धारा	8,4	5,3	5,5	[A]

ARS42-M140.05 K3 S21E

मैन्युअल उपकरण बदलना
आइटम नंबर 10001015-01



माप



पावर चित्र

कूलिंग नहीं

कार्य-निष्पादन मापन आंतरिक इंजन टेस्ट बेड पर होता है

सुविधाएं

इंजन गति सेंसर	ट्रांसमीटर (TTL) सिग्नल = 6
स्पर्श मान्यता	ध्वनिक उत्सर्जन सेंसर
मोटर सुरक्षा	PTC 160° C
हाउजिंग व्यास:	42 मिमी
कूलिंग	कूलिंग नहीं
हीट अपव्यय	स्पिंडल सपोर्ट के माध्यम से
हाउजिंग का तापमान	< + 45° C
ऑपरेटिंग परिवेश के तापमान	+ 10° C ... + 45° C
सीलिंग हवा	
सुरक्षा (सीलिंग एयर चालू की गई)	IP54
औजार विनियम	मैन्युअल उपकरण बदलना गाइडिंग बॉडी
उपकरण का स्थिरता	अधिकतम Ø 20 मिमी अधिकतम t = 4 - 6 मिमी
चकिंग क्षमता	Ø 7h6 - M4
दक्षिणावर्त	9 पिन (I-TEC) केबल लंबाई 3 m (मोटर चरणों)
मेल संयोजक	3 पिन केबल लंबाई 3,5 m (संवेदक प्रोद्यौगिकी)
भार	~ 1 किग्रा
रन-रीसीविंग सतह	< 1 µ